



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1934 (श0)

(सं0 पटना 107)

पटना, मंगलवार, 27 मार्च 2012

मुख्य अभियंता-2 भागलपुर (मुख्यालय पटना)  
ग्रामीण कार्य विभाग  
(हार्डिंग रोड बैरक सं0-2 पटना)

आदेश

21 मार्च 2012

सं0 767—जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0, दिनांक 04.02.02, पत्रांक-1337, दिनांक 21.03.07, पत्रांक-117, दिनांक 7.5.05 एवं पत्रांक-2360, दिनांक 24.12.08 के आलोक में जिलाधिकारी औरंगाबाद का पत्रांक-166 अनु0, दिनांक 13.07.2011 द्वारा क्रमांक 22 पर सुश्री रीना कुमारी पिता-स्व0 बृजा शर्मा, अनुसेवक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 औरंगाबाद को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति करने की अनुशंसा एवं अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-2 गया का पत्रांक-570, दिनांक 30.08.2011 द्वारा प्राप्त कागजात (आवेदन-पत्र, परिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों एवं शपथ-पत्रों) के आलोक में सुश्री रीना कुमारी को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर (पुराना वेतनमान 3050-4590) नया वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता है एवं ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी के अधीन पदस्थापित किया जाता है। सुश्री कुमारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी में वर्ग तीन के रिक्त पद के विरुद्ध देंगे। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान अवश्य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

- स्व0 बृजा शर्मा के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व सुश्री कुमारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।
- इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।
- नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।
- अगर सुश्री कुमारी की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ-पत्रों मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।
7. सुश्री कुमारी की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना का पत्रांक-नि0 6314, दिनांक 26.11.2011 द्वारा करा लिया गया है।
8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964, दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,  
ई0 अच्छे लाल राम,  
मुख्य अभियंता-2 भागलपुर,  
ग्रा0का0वि0, (मु0, पटना)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 107-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>